

<b>BSE Limited</b> Listing & Compliance Department Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001	<b>The National Stock Exchange of India Limited</b> Listing & Compliance Department Exchange Plaza, C-1 Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051
<b>Security Code : 532796</b>	<b>Symbol: LUMAXTECH</b>

**Sub:** Submission of e-Copies of Newspaper Advertisement regarding Completion of dispatch of Postal Ballot Notice through email only.

**Ref:** Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations").

Dear Sir/ Ma'am,

Pursuant to the provisions of Regulation 30, 47 and other applicable regulations of SEBI Listing Regulations, please find enclosed herewith the E-copies of Newspaper Advertisements, intimating about the completion of dispatch of Postal Ballot Notice electronically to the Members of the Company, published on February 22, 2023 in the Following Newspapers:

1. Financial Express (English- All Edition); and
2. Jansatta (Hindi- Delhi Edition).

The Published E-copies of aforesaid advertisements will also be made available on the website of the Company at [www.lumaxworld.in/lumaxautotech](http://www.lumaxworld.in/lumaxautotech)

You are requested to take the above information on records and oblige.

Thanking you,  
Yours faithfully,

For Lumax Auto Technologies Limited



**Raajesh Kumar Gupta**  
**Vice President & Group Head**  
**(Secretarial, Legal & Internal Audit)**  
**Membership No. A8709**

Encl: As stated Above



# Omega Seiki to set up facility in Bangladesh

**PRESS TRUST OF INDIA**  
Mumbai, February 21

**EV MAKER OMEGA** Seiki Mobility (OSM) will set up a manufacturing facility in Bangladesh for its M1KA brand of e-trucks besides their distribution in a joint venture with Brandwin Group, at an investment of \$10 million.

The proposed facility will cater to the domestic market of Bangladesh as well as its exports requirements and will be functional by as early as 2024, initially with the assembly of completely knocked down kits of M1KA trucks, including 1-3 tonne capacity trucks.

# SpiceJet board to consider raising fresh funds on Feb 24

**PRESS TRUST OF INDIA**  
New Delhi, February 21

**SPICEJET ON TUESDAY** said its board will meet on Friday to consider options to raise funds as well as to convert certain outstanding liabilities into equity shares of the company.

The no-frills airline, which has been grappling with multiple headwinds, including legal woes, is looking to raise fresh capital through issuance of eligible securities to qualified institutional buyers.

Besides, the carrier plans to issue equity shares on preferential basis consequent upon conversion of outstanding liabilities into equity shares of the company, subject to applicable regulatory approvals, according to a filing to the BSE.

Both plans will be taken up by the board of directors during its meeting which has been scheduled for February 24.



## ON THE CAPITAL RUNWAY

■ The no-frills airline, grappling with multiple headwinds, including legal woes, is looking to raise fresh capital through issuance of eligible securities to qualified institutional buyers

■ The carrier also plans to issue equity shares on preferential basis consequent upon conversion of outstanding liabilities into equity shares of the company

Specific details about the proposals could not be immediately ascertained.

In December last year, SpiceJet chairman and managing director Ajay Singh told

the shareholders that the company is engaged with investment bankers to raise up to \$200 million in order to achieve its future plans.

He had also said the increase in the Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) to ₹1,500 crore will go a long way in providing the much-needed stability to the sector.

"The infusion of additional funds will help SpiceJet normalise its obligations, unground its fleet and induct new planes into our fleet...we have also completed a series of settlements with most of our major partners including manufacturers and lessors setting the stage for our seamless growth and expansion," he had said.

On Tuesday, shares of the SpiceJet airline declined nearly 2% to ₹37.60 a piece in the afternoon trade on the BSE.

# Data centre capacity to jump sixfold in six years: Icr

**FE BUREAU**  
New Delhi, February 21

**AROUND 4,900-5,000 MW** of data centre capacity, involving investments of around ₹1.5 trillion, are likely to be added in the next six years, according to Icr. This is a six-fold increase from the current capacities. Data localisation and data explosion are leading to data centre revolution in India.

To cater to the increasing demand, Indian corporates like the Hiranandani Group, the Adani Group and Reliance Industries; foreign investors like Blackstone, Capitaland, Princeton Digital Group; captive consumers like Amazon, and Microsoft have started investing in Indian data centre market. Along with them, existing players like NTT, CtrlS, Nxtra, STT India are also expanding their capacities.

"The key triggers for digital explosion in India are the increasing internet and mobile

penetration, the government's thrust on e-governance/digital India, adoption of new technologies (cloud computing, IoT, 5G, etc), growing user base for social media, gaming, e-commerce and OTT platforms. This, coupled with favourable regulatory policies like the draft Digital Data Protection Bill 2022, providing infrastructure status to data centres, special incentives from central and state governments like land at subsidised cost, power subsidies, exemptions on stamp duty, discounts on usage of renewable energy and procurement of IT components made locally, and other concessions are expected to boost investments in the country," said Anupama Reddy, vice president and co-group head, Icr.

Mumbai, Hyderabad and NCR will account for 70-75% of the installed data centre capacity. Data centre players are also expected to invest in green power.

**zydus**  
Dedicated to Life

**ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED**  
(Formerly known as Cadila Healthcare Limited)  
[CIN L24230GJ1995PLC025878]

Regd. Office : Zydus Corporate Park, Scheme No. 63, Survey No. 536, Near Vaishnodevi Circle, Khoraj (Gandhinagar), Sarkej - Gandhinagar Highway, Ahmedabad - 382481. Website : www.zyduslife.com  
Email : dhavalsoni@zyduslife.com Telephone : -91-79-48040000

**NOTICE**

Notice is hereby given that the Company has received intimation from the following shareholder that the Share Certificates pertaining to the Equity Shares held by him as per the details given below have been lost / misplaced.

Sr. No.	Name of the shareholder	Distinctive Numbers	Folio Number	No. of Shares	Certificate No.
1.	Anand Daga Madhuri Daga	5241731-5244730	109645	3000	4254

If the Company does not receive any objection within 7 days from the date of publication of this notice, the Company will proceed to issue duplicate Share Certificate to the aforesaid shareholder. People are hereby cautioned not to deal with the above Share Certificates anymore and the Company will not be responsible for any loss / damage occurring thereby.

For, ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED  
Date : February 21, 2023  
Place : Ahmedabad  
Sd/- DHAVAL N. SONI  
COMPANY SECRETARY

# ACME, Japan's IHI to explore green hydrogen opportunities

**FE BUREAU**  
Bengaluru, February 21

**ACME GROUP, A** diversified renewable energy company, and IHI Corporation, a comprehensive heavy-industry manufacturer in Japan, on Tuesday announced the signing of a memorandum of understanding (MoU) to jointly explore the potential business opportunities of green hydrogen.

The two companies said

they will study and evaluate potential projects with respect to collaboration opportunities across the green hydrogen and ammonia value chain, including production, handling, transportation, distribution, and power generation. The MoU will allow IHI to participate as an investor or take off take in ACME's projects in Oman, India, USA or Egypt. Both the companies will also explore opportunities to jointly offer

complete integrated solution to customers from green ammonia supply, bunkering and products or solutions for various applications.

Manoj K Upadhyay, founder and chairman, ACME Group, said, "We will together to explore opportunities across green hydrogen and ammonia value chain, including production, handling, transportation, distribution, and power generation."

# Battery PLI: ₹33k cr needed to achieve production target

**SALMAN SH**  
Bengaluru, February 21

**INDIA NEEDS INVESTMENTS** worth ₹33,750 crore to achieve the PLI target of setting up 50 GWh of lithium-ion cell and battery manufacturing plants, according to an independent study released on Tuesday by the Council on Energy, Environment and Water (CEEW).

The country requires up to 903 GWh of energy storage to decarbonise its mobility and power sectors by 2030, and lithium-ion batteries will meet the majority of this demand. Earlier this month, the government announced that it had established lithium inferred resources of 5.9 MT in the Reasi district of Jammu and Kashmir.

The CEEW study calculates the material and financial requirements and offers a blueprint for the domestic strategy as India's demand is expected to increase significantly. The analysis is based on the minimum manufacturing plant capacity allocated under the PLI scheme — 5 GWh. These plants will also be energy-intensive — requiring



250 GWh of power annually for a 5 GWh plant — and require cheap and reliable power supply.

"This year's Budget has shown India's interest in addressing these challenges by eliminating duties on battery manufacturing equipment and providing viability gap funding for battery projects. To scale up domestic lithium-ion manufacturing, India should step up R&D investments, focus on battery cell component manufacturing, reduce material costs, and support recycling to reduce the need for new materials," said Rishabh Jain, senior programme lead, CEEW.

To fulfill the overall battery

demand, India will need 969-1,452 kilotonnes of anode, cathode and electrolyte material (the components for a battery) between 2022 and 2030. This requires the country to prioritise other energy storage technologies as well. The study estimates that new battery manufacturing facilities have a minimum capacity of 5 GWh. The total cost, including land acquisition, factory floor space, warehousing, and connecting utilities, could lie between ₹2,437-3,375 crore) for each 5 GWh facility. Furthermore, these factories will be energy-intensive, with a 5 GWh production facility consuming about 250 GWh (250 MU) annually.

The CEEW study also recommends focusing on the strategic sourcing of critical minerals and pushing for research, development and demonstration in all technologies to retain competitiveness. At the same time, reducing the cost of manufacturing batteries by innovating and updating manufacturing processes, and making policy changes to lower the cost of cell components are important.

**TPCODL**  
**TP CENTRAL ODISHA DISTRIBUTION LIMITED**  
(A Tata Power and Odisha Govt. Joint Venture)  
2nd Floor, IDCO Tower, Janpath Bhubaneswar, Odisha 751022

**NOTICE INVITING TENDER**  
NIT No: TPCODL/P&S/NIT/22-23/019

TP Central Odisha Distribution Limited invites open tender from eligible Bidders for the following:

Sl No	Tender Description	Tender Enquiry No.	Tender Fee inclusive of GST (Rs.)	EMD (Rs. Lakhs)	Last date & time of payment of Tender Fee
1	Rate Contract for Supply of Stationary Items at TPCODL offices	TPCODL/P&S/1000000346/2022-23	5,000/-	0.50	03/03/2023, 17.00 Hrs.
2	Rate Contract for Supply of WPB Poles 11M & 13M at TPCODL sites.	TPCODL/P&S/1000000351/2022-23	5,000/-	5.00	06/03/2023, 17.00 Hrs.

For further details of Tenders, please visit Vendor Zone/Tender Section on TPCODL website <https://www.tpcentralodisha.com>. Future communication/corrigendum to tender documents, if any, shall be available on website.

**RADIANT CASH MANAGEMENT SERVICES LIMITED**  
(Formerly Radiant Cash Management Services Private Limited)  
CIN: U74999TN2005PLC055748  
Regd. Office : 28, Vijayaraghava Road, T.Nagar, Chennai - 600 017, Tamil Nadu. Phone : 91-44 - 4904 4904. E-mail: investorrelations@radiantcashlogistics.com Website: <https://radiantcashservices.com/>

**POSTAL BALLOT NOTICE**

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Postal Ballot Notice, seeking the approval of the Members on the resolutions set out in the said Notice, has been sent electronically on **Tuesday, February 21, 2023** to the Members whose e-mail address are registered with the Company / Depository Participant as on **Friday, February 17, 2023 (Cut-off date)**. The approval of the Members by Postal Ballot is sought for the following special businesses by way of Ordinary / Special Resolutions through voting by electronic means:

Sr. No.	Type of Resolution	Description of Resolutions
1	Special Resolution	To approve alteration of Articles of Association of the Company
2	Special Resolution	To approve "Article 177 - Nomination of Directors by Investor" of the Articles of Association of the Company
3	Ordinary Resolution	To approve the Material Related Party Transaction(s) to be entered into with Radiant Protection Force Private Limited

Members can download the Postal Ballot Notice available on the website of the Company at [www.radiantcashservices.com](http://www.radiantcashservices.com) website of the Stock Exchanges, i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com). The documents mentioned in the Postal Ballot Notice are available for inspection electronically and Members seeking to inspect such documents can send an e-mail to [investorrelations@radiantcashlogistics.com](mailto:investorrelations@radiantcashlogistics.com)

In accordance with the MCA Circulars, the Postal Ballot Notice has been sent only in electronic form to Members whose names appear on the Register of Members / List of Beneficial Owners as received from the NSDL and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as on the cut-off date and who have registered their e-mail addresses with the Company / Depository Participant.

Member(s) whose names appear on the Register of Members / List of Beneficial Owners as on the cut-off date will be considered for E-Voting. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.

In accordance with the applicable Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, the Company is providing to its Members the facility to exercise their right to vote only by electronic means (e-voting). The Company has engaged the services of NSDL to provide e-voting facility. The e-voting shall commence from **Wednesday, February 22, 2023 from 9:00 a.m. (IST)** and shall end on **Thursday, March 23, 2023 till 5:00 p.m. (IST)**. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently. The detailed instructions for e-voting forms part of the Postal Ballot Notice.

**Members who have not registered their e-mail ID are requested to register the same in the following manner:**

- Members holding shares in physical mode, who have not registered / updated their e-mail address are requested to register the same with the Company by sending an e-mail to [investorrelations@radiantcashlogistics.com](mailto:investorrelations@radiantcashlogistics.com)
- Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered their e-mail address with their Depository Participants are requested to get in touch with their Depository Participant with whom they maintain their dematerialized account.

The resolutions, if passed with requisite majority by the Members through Postal Ballot shall be deemed to be passed on the last date of the voting period, i.e. on **23rd March 2023**. The results of the Postal Ballot will be announced on or before **Monday, March 27, 2023**. The results will also be displayed at the Registered Office of the Company, intimated to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed and displayed along with the Scrutinizer's report on the Company's website [www.radiantcashservices.com](http://www.radiantcashservices.com) and the website of NSDL [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

Members having any queries or issues regarding attending e-voting may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and the e-voting manual available at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call the toll free number: 1800 1020 990 / 1800 2244 30 or contact Ms. Prajakta Pawle, at the designated e-mail ID: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) to get your grievances on e-voting addressed during working hours on all working days.

For **RADIANT CASH MANAGEMENT SERVICES LIMITED**  
Sd/-  
Jaya Bharathi K  
Company Secretary  
F8758

Place : Chennai  
Date : 21.02.2023

**ARVIND SMARTSPACES LIMITED**  
(CIN - L45201GJ2008PLC055771)  
Regd. Office: 24, Government Servant's Society, Near Municipal Market, Off. C.G. Road, Navrangpura, Ahmedabad-380009. Contact: 079 6826 7000 Website: [www.arvindsmartspace.com](http://www.arvindsmartspace.com) Email: [investor@arvindinfra.com](mailto:investor@arvindinfra.com)

This notice is hereby given to the shareholders holding shares in physical form of Arvind SmartSpaces Limited ("the Company") pursuant to SEBI circular SEBI/HO/OAE/2023/03391 dated January 27, 2023 for generating awareness on availability of Dispute Resolution Mechanism at Stock Exchanges against Listed Companies/Registrar to an issue and Share Transfer Agents (RTAs). As per aforesaid circular "if you have any dispute against the Company and/or its Registrar and Share Transfer Agent (RTA) in delay or default in processing your request, as per SEBI circular dated May 30, 2022, you can file for arbitration with Stock Exchange.

For more details, please see the web links of the stock exchanges - BSE - <http://tiny.cc/s11zvz> and NSE - <http://tiny.cc/s11zvz> Kindly note that the Company has duly sent the above information via SMS/e-mail on February 10, 2023 to the shareholders holding shares in physical form whose phone numbers or e-mail ids are available in the records of the Company. Further, this notice shall be deemed to be adequate notice for all the shareholders holding shares in physical form whose details are not available with the Company.

We would like to bring to your notice that SEBI vide its circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD\_RTAMB/PIR/2021/655 dated November 03, 2021 has mandated that all the folios have to be KYC compliant and accordingly we request you to register/update your PAN, KYC and Nomination details with our RTA, without which the RTAs shall not process any service requests.

For more information visit <https://www.linkintime.com/in->Resources->Downloads->KYC->Formats> for KYC.  
Place: Ahmedabad  
Date : 22<sup>nd</sup> February, 2023

For, Arvind SmartSpaces Limited  
Company Secretary

**UDAY JEWELLERY INDUSTRIES LIMITED**  
Regd. Office: 3-6-291/4/A, 1st Floor, Hyderguda, Hyderabad, Telangana, 500029Ph: +91-40-48538411; E-mail: [info@udayjewellery.com](mailto:info@udayjewellery.com); Website: [www.udayjewellery.com](http://www.udayjewellery.com); CIN: L74900TG1999PLC080813

**Corrigendum to the Extract of Standalone Un-Audited Financial Results for the Quarter and nine months ended 31st December, 2022** (Rs. in Lakhs)

S No	Particulars	Quarter ended 31.12.2022 (Unaudited)	Nine months ended 31.12.2022 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2021 (Unaudited)
1	Total income from operations	4485.53	13311.95	4697.45
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items)	324.44	992.14	300.65
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	324.44	992.14	300.65
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	251.20	742.44	224.98
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	251.20	742.44	224.98
6	Equity Share Capital	2202.19	2202.19	2202.19
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-
8	Earnings Per Share (for continuing and discontinued operations) - Basic:	1.14	3.37	1.02
	Diluted:	1.14	3.37	1.02

**Notes:**

- This is a Corrigendum to the Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2022 published on 14.02.2023. This corrigendum is being issued by the Company for orderly depiction, pursuant to and in compliance with Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 as amended.
- The above Standalone financial results were reviewed and recommended by the Audit committee, later approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on 13th February 2023. The Statutory Auditors of the Company have carried out a Limited Review of the aforesaid results.
- The Chairman and the Managing Director of the Company has been identified as the Chief Operating Decision Maker (CODM) as defined by IND AS 108, "Operating Segment". The Company operates in one segment only, accordingly, segment information has not been separately disclosed.
- The Statutory Auditors have carried an audit of the above results for the quarter and nine months ended December 31, 2022 and have issued an unmodified opinion on the same.
- The figures for corresponding previous year have been re-grouped/re-classified wherever necessary to make them comparable with present results.

For and on behalf of Board of Directors  
Sd/-  
Ritesh Kumar Sanghi  
Managing Director  
DIN: 00628033

Place: Hyderabad  
Date: 21-02-2023



IIFCL Asset Management Company Limited (IAMCL)
Asset Management Company to IIFCL Mutual Fund (IDF), SEBI Regn. No. MF071/13/01

NOTICE under Regulation 39(3) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996
Winding up of all schemes of IIFCL Mutual Fund, under Regulation 39(2)(a) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

This is with reference to the notice published on 1<sup>st</sup> February 2023 announcing the decision taken by the Board of Trustees of IIFCL Mutual Fund (IDF) as the Trustees of IIFCL Mutual Fund (IDF) to prematurely wind up both the existing scheme(s) of IIFCL Mutual (IDF) i.e., IIFCL Mutual Fund Infrastructure Debt Fund Series I & IIFCL Mutual Fund Infrastructure Debt Fund Series II, pursuant to Regulation 39(2)(a) of the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 ("Mutual Funds Regulations").

Accordingly, unit holders whose names appear on the register of unit holders maintained by the Fund or statement of beneficial ownership as maintained by the Registrar and Transfer Agent at the close of business hours of the record date i.e., 27<sup>th</sup> February, 2023 shall be entitled to attend and vote at the meetings.

On behalf of Board of Trustees of IIFCL Mutual Fund (IDF)
Date - 21.02.2023
Place - New Delhi
Chairman

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all the scheme related documents carefully.

Punjab National Bank
पंजाब नेशनल बैंक
पंजाब नेशनल बैंक का नाम रखें, नई दिल्ली-110086

कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)
प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित
जबकि अखेरवाली ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेरी एक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभूतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के तहत प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए

अचल सम्पत्तियों का विवरण
श्री होल्डर सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि डीडीए एक्सचेंज कैटेगिरी-11, भूतल + प्रथम तल, फ्लैट नं. 62, पॉकेट-एच, सरिता विहार, नई दिल्ली-110076 में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती गीता शर्मा पत्नी श्री चंद्र प्रकाश शर्मा के नाम पर है।

IMPORTANT
whilst care is taken prior to acceptance or advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications.

CAPITAL TRADE LINKS LIMITED
CIN: L51909DL1984PLC019622
Regd. Office: B-4, LGF Ashoka Niketan Delhi, India 110092

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING WITH CORRIGENDUM
Notice is hereby given that the Extra-Ordinary General Meeting (EGM) No. CTL/EGM/01/2022-23 of the members of Capital Trade Links Limited will be held on Monday, 20th February 2023 at 11:00 a.m. at Office no. 1, 3rd Floor, Mahanagar Metro Tower, C-1, C-2, Sector-4 Yashali, Ghazalabad-201010 UP to transact the business as stated in the Notice of EGM.

- 1. Date of completion of sending Notice of EGM: 20th February 2023
2. The remote e-voting period starts from Friday, 17th March, 2023 at 9:00 AM and ends on Sunday, 19th March, 2023 at 5:00 PM
3. Voting by electronic means shall not be allowed beyond 5:00 PM (IST) on 19th March, 2023
4. Any person who becomes a member of the company after dispatch of the notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. 13th March, 2023 may obtain the user ID and password from MAS Services Limited (Registrar & Share Transfer Agent of the Company).

Subheading-Maximum number of specified securities to be issued shall be read as under-
"Maximum 90,00,000 Equity Warrants at a price of Rs. 50/- to be issued where Face value is Rs. 1 and premium is of Rs. 49 aggregating to Rs. 45,00,00,000/- (Rupees Forty Five Crores only)"

Table with 5 columns: S. No, Allottee Name, Ultimate Beneficial Owners, Pre-Issue Equity Holding, No. of Warrants to be allotted. Contains 2 entries for Dhanadeeps Consultant Pvt. Ltd. and SIIA Advisory Pvt. Ltd.

The independent registered valuer report is available for the shareholders at the link: https://www.capitaltrade.in/IAGM.php
For Capital Trade Links Limited Sd/- Ms. Anupriya Ojha Company Secretary

STATE BANK OF INDIA
Khera Khurd, New Delhi - 110082
Tel: 011 27844370, E. sbi.06619@sbi.co.in

GOLD AUCTION CUM INVITATION NOTICE
The below mentioned borrower have been issued notice by put outstanding amount towards the loan facility against gold ornaments availed by him from SBI. Since the borrower has failed to repay this, we are constrained to conduct auction of the pledged ornaments on 24/02/2023.

Table with 2 columns: Name of the Borrower, Loan Account Number. Entry: Mr. Ravi Kumar, 40708120725

Auction will be held on Friday 24.02.2023 at SBI Khera Khurd Delhi 82 branch premises from 3:00 PM. Interested buyer may come for the auction. Please note if the auction does not get completed on the same day due to time limit the same will follow on the subsequent days at the same time and place.

संस्कृति मंत्रालय G20 भारत सरकार
75th Anniversary अमृत महोत्सव

नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय
द्वारा आयोजित सार्वजनिक व्याख्यान
भारतीय सौंदर्यबोध और कला दृष्टि में आप सादर आमंत्रित हैं

वक्ता- डॉ. ज्योतिष जोशी
वर्षि फेलो, एन एम एम एल
दिनांक : शुक्रवार 23 फरवरी 2023, समय अपराह्न 3.00 बजे
सभी का स्वागत है।

Those wishing to have their names added to the email list please email us at: ccs2nmml@gmail.com

Occasional Papers: http://nehruememorial.nic.in/publication
Video Links of Lectures: https://www.youtube.com/user/nehruememoriallibrary

CBC 09142/12/0055/2223

LUMAX ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
पंजी. कार्यालय : द्वितीय तल, हर्षक भवन-II, कनारिया कॉम्प्लेक्स, मंगल रोड, नई दिल्ली-110046

सदस्यों के लिए पोस्टल बिलेट की सूचना
एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108, 110 और सभी अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई है, कंपनी अधिनियम (प्रवर्तन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22, यथा संशोधित ("नियम"), के साथ पठित कर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सामान्य परिचय सं. 14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020, 10/2021, 20/2021, 03/2022 और 11/2022 क्रमशः दिनांक 20, 2020, 13 अक्टूबर, 2020, 15 जून, 2020, 28 सितंबर, 2020, 31 दिसंबर, 2020, 23 जून, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 05 मई, 2022 और 28 दिसंबर, 2022, (सामूहिक तौर पर "एमसीए परिचय"), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अधिनियम) अधिनियम, 2015 के अधिनियम 44 ("सूचीकरण विनियम")- वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधनों अथवा इसके पुनः अधिनियम सहित, और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सिक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा सामान्य बैटल के संबंध में जारी सचिवालयीय मानदंड-2 (एसएस-2), तथा अन्य लागू कानूनों और विनियमों, यदि कोई है, के अनुसार कंपनी ने पोस्टल बिलेट नोटिस में वर्णित संकेतों के लिए ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की सहमति/स्वीकृति प्राप्त करने के लिए मंगलवार, 21 फरवरी, 2023 को पोस्टल बिलेट नोटिस, ईमेल के जरिए केवल उन सदस्यों को, प्रेषित करने का कार्य पूरा कर लिया है, जिनके नाम शुक्रवार, 17 फरवरी, 2023 को ("कट ऑफ तिथि") को सदस्यों के रजिस्टर/लाभांश स्वामियों की सूची में दर्ज हैं तथा जिन्होंने पते डिपॉजिटरीज अर्थात नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड ("एनएसडीएल") तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") तथा/अथवा कंपनी के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट अर्थात विगोशर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ("विगोशर") के पास पंजीकृत है।

ऊपर वर्णित एमसीए परिचयों के अनुरूप पोस्टल बिलेट नोटिस, साथ में पोस्टल बिलेट फॉर्म और प्री-पेड विनियम रिफाई निर्माणों की मॉलिक प्रतियां सदस्यों को नहीं भेजी जाएंगी। सदस्यों की सहमति/अनुमति की सूचना केवल रिफाई ई-वोटिंग सिस्टम ("ई-वोटिंग") के जरिए प्राप्त की जाएगी। कोई व्यक्ति, जो कि कट-ऑफ तिथि को कारोबार के घण्टे बंद होने के समय सदस्य नहीं है, उन्हें इस नोटिस को कल सूचना कल उद्देश्य के लिए मान लेना चाहिए। कंपनी ने कंपनी के सदस्यों को रिफाई ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल की सेवाएं प्राप्त की हैं। ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन पोस्टल बिलेट नोटिस की टिप्पणियों में किया गया है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने निम्नलिखित तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया संचालित करने के लिए संकल्प दिनांक 13 फरवरी, 2023 के जरिए श्री मनीष गुप्ता, प्रेकटाइजिंग कंपनी सर्विसेज (एफसीएस 4982) को समीक्षक के तौर पर नियुक्त किया है। अतः सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि-

- i. पोस्टल बिलेट सूचना डिस्ट्रीब्यूट करने/भेजने की समापन तिथि मंगलवार, 21 फरवरी, 2023 है।
ii. ई-वोटिंग प्रक्रिया बृहस्पतिवार, 23 फरवरी, 2023 को 9.00 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.) पर प्रारम्भ होगी और शुक्रवार, 24 मार्च, 2023 को 5.00 बजे अप. (भा.मा.स.) पर समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 17 फरवरी, 2023 को मॉलिक या अनौपचारिक रूप से डाल धारण करने वाले कंपनी के सदस्य अपना वह इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं। इसका पर्याप्त रिफाई ई-वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय किया जायेगा।

iii. रिफाई ई-वोटिंग के माध्यम से सदस्यों के मताधिकार की परिगणना शुक्रवार, 17 फरवरी, 2023 (कट-ऑफ तिथि) को व्यापारिक घंटों की समाप्ति तक उनके द्वारा धारित इविटिंग वॉचरों के अनुपात के आधार पर की जायेगी।
iv. पोस्टल बिलेट की सूचना कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.lumaxworld.in/lumaxautotech तथा साथ ही एनएसडीएल की वेबसाइट अर्थात www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध कर दी गई है।
v. यदि ई-मेल पता कंपनी/कंपनी के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट/ डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है तो ई-मेल पता पंजीकृत करने और ई-वोटिंग हेतु लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए कृपया निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करें:

- a) मॉलिक माध्यम से शेर धारण करने वाले सदस्य जिन्होंने अपने ई-मेल पते कंपनी के साथ पंजीकृत/अपडेट नहीं कराये हैं वे रजिस्ट्रार एवं शेर अंतरण एजेंट (शेअरटी), विगोशर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास prasadm@bigshareonline.com पर लिखकर इसे पंजीकृत करा लें।
b) अनौपचारिक रूप से शेर धारण करने वाले सदस्य कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी भागीदार(सो) के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट कराये।
ई-मेल पते के सफल पंजीकरण के बाद, ई-वोटिंग यूजर आईडी तथा पासवर्ड सहित यह सूचना सदस्य से प्राप्त निवेदन के पर्याप्त आयुक्त पंजीकृत ई-मेल पते पर भेज दी जायेगी। किसी पूछताछ के लिए सदस्य shares@lumaxmail.com पर लिख सकते हैं।

vi. किसी पूछताछ के लिए सदस्य https://www.evoting.nsdl.com पर Frequently Asked Questions (FAQs) का संदर्भ ले सकते हैं या एनएसडीएल से 022-4886 7000 और 022-2499 7000 (टोल फ्री) पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल निवेदन भेज सकते हैं।
vii. ई-वोटिंग से सम्बंधित किसी शिकायत के लिए सदस्य निम्नलिखित से सम्पर्क कर सकते हैं:
सुश्री सरीता मोटे
नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड,
यूनित: ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
फोन: 022-4886 7000 और 022-2499 7000 | ईमेल: evoting@nsdl.co.in

viii. ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बिलेट के संबंध में किसी भी शिकायत के लिए, सदस्य संपर्क कर सकते हैं:
श्री राजेश कुमार गुप्ता
उपाध्यक्ष और समूह प्रमुख (सचिवीय, कानूनी और आंतरिक लेखा परीक्षा)
नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
यूनित: ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
फोन: +0124-4760000 / ईमेल shares@lumaxmail.com
पोस्टल बिलेट का परिणाम (ई-वोटिंग के माध्यम से) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर शनिवार, 25 मार्च, 2023 को 5.00 बजे अप. (भा.मा.स.) अथवा इससे पहले घोषित किया जाएगा। संवीक्षक की रिपोर्ट सहित पोस्टल बिलेट के परिणाम कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.lumaxworld.in/lumaxautotech तथा एनएसडीएल की वेबसाइट अर्थात www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित किये जायेंगे। ये परिणाम साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंजों, जहां कंपनी के शेर सूचीबद्ध हैं तथा कंपनी के डिपॉजिटरी और रजिस्ट्रार और शेर ट्रांसफर एजेंट को भी सूचित किए जायेंगे।

बोर्ड के आदेश से
ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
राजेश कुमार गुप्ता
उपाध्यक्ष और समूह प्रमुख (सचिवीय, कानूनी और आंतरिक लेखा परीक्षा)
दिनांक : 21 फरवरी, 2023
आईसीएसआई सदस्यता संख्या: A8709

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
418, चतुर्थ तल, प्लॉट ओमेक्स टॉवर-2, नेताजी सुभाष चौरा, पीतम्पुरा दिल्ली 110034

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेरी एक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभूतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अंतर्गत यह सूचना जारी की जाती है।
हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से प्राप्त किये गये ऋण जो कि एन पी ए हो चुके हैं व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्नवर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्नवर्णित ऋणियों को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण हेतु प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांक को पंजीकृत डाक पावती सहित / स्वीड कोर्ट / कोरियर द्वारा आम सभी को भेजी गयी थी, जिसकी पावती प्राप्त नहीं हुई/ जो विना तामील वापस प्राप्त हो गयी है। मांग सूचना निम्नवर्णित दिनांक में हमने आशय को स्पष्ट कर दिया था, कि आपके द्वारा सूचना में दर्शाई राशि 60 दिनों के अन्दर जमा नहीं करायी गयी तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार बैंक में बैंक सम्पत्तियों जो कि निम्नलिखित ऋणियों/जमानदारों के नाम हैं, उनका अधिकार्य ले लिया जायेगा और कच्चा सूचना/ई-नौलमी सूचना में कर्जदार व गारंटरों की फोटो प्रकाशित की जायेगी। बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

Table with 5 columns: क्र. सं., कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर के नाम और एनपीए की तारीख, मांग सूचना की तारीख बकाया राशि, सिक्कोई आस्तियों का विवरण. Contains 11 entries for various borrowers and guarantors.

Table with 5 columns: क्र. सं., कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर के नाम और एनपीए की तारीख, मांग सूचना की तारीख बकाया राशि, सिक्कोई आस्तियों का विवरण. Contains 12 entries for various borrowers and guarantors.

उक्त वर्णित ऋणियों/जमानदारों को सलाह है कि (1) अधिक एवं विस्तृत जानकारी के लिए अखेरवाली से मूल नोटिस प्राप्त कर लें (2) मांग सूचना में दर्शाई गयी बकाया राशि ब्याज एवं चर्खे आदि सहित मांग सूचना की दिनांक के 60 दिनों के भीतर जमा करके ताकि सरफेरी अधिनियम के तहत अतिरिक्त कार्यवाही से बच सकें।
दिनांक : 21.02.2023, स्थान : दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड